



तुरंत जारी करने के लिए: शुक्रवार, 11 मार्च, 2022

संपर्क: Christina Faine, पार्क्स और सामुदायिक सेवा सार्वजनिक सूचना अधिकारी, 425-452-4286 or cfaine@bellevuewa.gov

मानव सेवाओं के लिए निधि की उपलब्धता

BELLEVUE, Wash. – Bellevue शहर 2023-2024 के लिए समुदाय में मानव सेवा प्रदाताओं से आवेदन स्वीकार कर रहा है. प्रस्ताव मंगलवार, 15 मार्च से लेकर गुरुवार, 28 अप्रैल को शाम 4 बजे तक जमा किया जा सकता है.

Bellevue खाद्य सुरक्षा, आवास स्थिरता, बेघरों की रोकथाम, स्वास्थ्य, व्यवहारिक स्वास्थ्य, युवा सेवाओं, घरेलू हिंसा सेवाओं, चाइल्डकेयर सब्सिडी और कई अन्य सहित, मानव सेवा की जरूरतों के पूर्ण स्पेक्ट्रम को संबोधित करने वाले कार्यक्रमों का निधिकरण करता है.

मानव सेवा प्रदाता [Share-1-App](#) पर आवेदन कर सकते हैं. Bellevue मानव सेवा आयोग अप्रैल और जुलाई के बीच आवेदनों की समीक्षा करेगी, और पतझड़ में नगर परिषद को निधिकरण की अनुशंसाएं पेश करेगी.

चयन के कारकों में शामिल है: 2021-2022 [Bellevue मानव सेवाओं की जरूरतों का अपडेट](#) में पहचानी गई सामुदायिक जरूरतों के आधार पर प्राथमिकता, पूर्व के प्रदाता का प्रदर्शन, विविधता और सांस्कृतिक दक्षता, और मानव सेवाओं के व्यापक सांतात्यक का महत्व.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहर में अच्छा वित्तीय प्रबंधक हो, संविदा एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाते हैं.

फंड के लिए आवेदन करने में रुचि रखने वाली एजेंसियों को एक वर्चुअल मानव सेवा फंडर की सहयोगात्मक वर्कशॉप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. सभी के लिए खुली, यह वर्कशॉप प्रारंभिक आवेदकों के लिए खासतौर पर मददगार है.

- मंगलवार, 15 मार्च, दोपहर 1-3 बजे.
- बुधवार, 16 मार्च, सुबह 9-11 बजे.

इस सत्र में आवेदन की विषय-वस्तु, तकनीकी विवरण और नगर विशेष जानकारी कवर की जाएगी. अतिरिक्त जानकारी और वर्चुअल वर्कशॉप की लिंग [Share-1-App](#) में पाई जा सकती है. वर्कशॉप रिकॉर्ड की जाएगी.

मानव सेवा फंडर कोलेबोरेटिव का सदस्य, Bellevue मानव सेवाओं का निधिकरण करने के लिए King काउंटी में 15 अन्य शहरों के साथ आम आवेदन प्रक्रिया में भाग लेता है.

Andy Owre या 711 रिले सेवा 425-452-7871 पर कॉल करके वर्कशॉप के लिए आवास या अनुवाद सेवाओं की व्यवस्था की जा सकती है. अनुवाद सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए कृपया कार्यक्रम से कम से कम 24 घंटे पहले कॉल कर दें.

फंडिंग आवेदन की अनुवादित प्रति की मांग करने के लिए, Christy Stangland पर 425-452-6542 से संपर्क करें या cstangland@bellevuewa.gov.

इस प्रेस विज्ञप्ति को हिंदी में पढ़ने के लिए, यहां क्लिक करें.

Bellevue शहर के बारे में

लगभग 100 पार्क और ट्रेल व ग्रीनबेल्ट के व्यापक नेटवर्क के साथ "City in a Park (पार्क में शहर)" के नाम से प्रसिद्ध, Bellevue वॉशिंगटन का पांचवा सबसे बड़ा शहर है. यह ईस्टसाइड शहर Washington झील से Sammamish झील तक 33.5 वर्ग मील में फैला है. Innovation Triangle (नवाचार त्रिभुज) के भाग के तौर पर, Bellevue चमचमाती गगनचुंबी इमारतों वाला हाई-टेक और रिटेल सेंटर है, 145,000 से ज्यादा लोगों की विविधता भरी आबादी और देश में सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में गिने जाने वाले स्कूल. क्यों Bellevue ऐसा शहर है जहां आप जाना चाहेंगे, इस बारे में और जानने के लिए BellevueWA.gov पर जाएं.

###